

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 131]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 8 फरवरी 2010—माघ 19, शक 1931

OFFICE OF THE EXCISE COMMISSIONER, MADHYA PRADESH

Gwalior, the 6th February, 2010

CORRIGENDUM

No. 5(1) 09-10-298.—In the TENDER NOTICE published in Madhya Pradesh Extra-Ordinary Gazette No. 125 of 4th February 2010, in first line of sub condition (ii) of condition 11 on page 250 (5), the first word “The” shall be substituted by the word “To” and on last page number 250 (10) in Annexure-III, last five lines shall be omitted.

Sd./-
(ARUN PANDEY)
Excise Commissioner
Madhya Pradesh.